



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072025-264811
CG-DL-E-19072025-264811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3228]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947

No. 3228]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3301 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1905 तारीख 25/04/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 41.369 से कि.मी. 83.500 (एँस्डीओ बारामती) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24.05.2025 " को " लोकसत्ता (मराठी)" और "द इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 41.369 से कि.मी. 83.500 (एँस्डीओ बारामती) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पुणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बारामती					
गांव का नाम: काटेवाडी					
1	391	निजी	कृषी	0.0132	अरुण शंकर निगडे, समाधान केशवराव पाटील, शंतनू राहुल काटे, एपीके राहुल एकनाथ काटे, प्रथमेश प्रशांत काटे आणि हेमतला रघुनाथ काळे. 391
2	392	निजी	कृषी	0.0676	राहुल एकनाथ काटे, विठ्ठल सखाराम इंदलकर, चंद्रकांत मराती कांबले, सूर्यकांत मारुती कांबले, आशालता संजय सोनावाने, यशोदा मारुती कांबले, अशोक नामदेव कांबले, नितिन मरुतराओ काले, शिवाजी शंकर काले, रघुनाथ शंकर काले, ज्ञानदेव शंकर काले, मारुती शंकरराव काले, हेमाताला रघुनाथ काले, गंगाराम बलकू भोसले, प्रभाकर बाबुराव जगताप,

					स्वाती महेश घोलवे, तुल्साबाई शंकर ननवारे, शंकर बापू ननवारे, चंद्रकांत गजेंद्र जाधव, प्रवीण अर्जुन सालुंके, लक्ष्मी विनायक मुदलिक, ज्योती रमेश दलवी, दिपाली रमेश दलवी एपीके ज्योती रमेश दलवी, रुतुजा रमेश दलवी, यश रमेश दलवी एपीके ज्योती रमेश दलवी, गणेश नामदेव कांबले, ज्ञानेश्वर नामदेव कांबले, महेश गोपीचंद घोलवे, अश्विनी गोकुल मालवे, अमोल विनायक मुंडलिक, शारदा पांडुरंग शिंदे, प्रवीण पांडुरंग शिंदे, संजय पांडुरंग शिंदे, मीनाक्षी पांडुरंग शिंदे, नंदाबाई रामचंद्र सोनावाने, युवराज गुजाबा सोनावाने, मारुती बलकू भोसले, प्रल्हाद विष्णू चवन, उत्तम धोंडीबा सोलंकर, सिमा राजेश अगवने, वैशाली सुनील काले, नितिन अर्जुन सालुंके, मंगल अर्जुन सालुंके, महेश अर्जुन सालुंके, संतोष अर्जुन सालुंके, राजश्री गजानन इंदलकर, कंचन गजानन इंदलकर, कोमल गजानन इंदलकर, काजल गजानन इंदलकर, करीना गजानन इंदलकर, प्रमोद पोपट टकले, मोहम्मद मकबुल शेख, प्रमिला भारत दलवी,
--	--	--	--	--	---

					उमेश भारत दलवी, शिवांगंगा दिलिप गवली, जनाबाई पपोट मनसुके, संदीप शिवाजी वाणी, कपिलदेव शिवाजी वाणी, राजूभाई बबनभाई सैयद, हरिदास हनुमंत म्हेत्रे, मारुती यल्लप्पा जाधव, दीपा नंदकुमार होले, संतोष हनुमंत म्हेत्रे, स्वाती अलियास शुभांगी केशव पवार, ओमकार केशव पवार एपीके मंदर स्वाती पवार, ओएम केशव पवार एपीके मंदर स्वाती पवार, तुफैल इकबाल खान, वैभव हरिभाऊ डोम्बे, वैशाली कुमार भोसले, नूतन किशोर इंगावाले, चंद्रकांत हरिभाऊ डोम्बे, कोमल नीलेश भोइते. 392
Total				0.0808	

[फा. सं. NHA/PIU/SLP//LA/17/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3301(E).— – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1905 Dated:25/04/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH965G in the stretch of land from Km. 41.369 to Km. 83.500 (SDO Baramati) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Loksatta (Marathi)” and “The Indian Express (English)” both dated 24.05.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH965G in the stretch of land from Km. 41.369 to Km. 83.500 (SDO Baramati) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Baramati					
Village: Katewadi					
1	391	Private	Agriculture	0.0132	Arun Shankar Nigde, Samadhan Keshavrao Patil, Shantanu Rahul Kate APK Rahul Eknath Kate, Prathamesh Prashank Kate & Hematala Raghunath Kale 391
2	392	Private	Agriculture	0.0676	Rahul Eknath Kate, Vitthal Sakharam Indalkar, Chandrakant Marati Kamble, Suryakant Maruti Kamble, Ashalata Sanjay Sonawane, Yashoda Maruti Kamble, Ashok Namdev Kamble, Nitin Marutrao Kale, Shivaji Shankar Kale, Rughunath Shankar Kale, Dnyandev Shankar Kale, Maruti Shankarrao Kale, Hematala Raghunath Kale, Gangaram Balku Bhosale, Prabhakar Baburao Jagtap, Swati Mahesh Gholve, Tulsabai Shankar Nanware, Shankar Bapu Nanware, Chandrakant Gajendra

					<p> Jadhav, Pravin Arjun Salunke, Lakshmi Vinayak Mudlik, Jyoti Ramesh Dalvi, Dipali Ramesh Dalvi APK Jyoti Ramesh Dalvi, rutuja Ramesh Dalvi, Yash Ramesh Dalvi APK Jyoti Ramesh Dalvi, Ganesh Namdev Kamble, Dnyaneshwar Namdev Kamble, Mahesh Gopichand Gholve, Ashwini Gokul Malve, Amol Vinayak Mundlik, Sharada Pandurang Shinde, Pravin Pandurang Shinde, Sanjay Pandurang Shinde, Meenakshi Pandurang Shinde, Nandabai Ramchandra Sonawane, Yuvraj Gujaba Sonawane, Maruti Balku Bhosale, Pralhad Vishnu Chavan, Uttam Dhondiba Solankar, Sima Rajesh Agavane, Vaishali Sunil Kale, Nitin Arjun Salunke, Mangal Arjun Salunke, Mahesh Arjun Salunke, Santosh Arjun Salunke, Rajshri Gajanan Indalkar, Kanchan Gajanan Indalkar, Komal Gajanan Indalkar, Kajal Gajanan Indalkar, Kareena Gajanan Indalkar, Pramod Popat Takle, Mohammad Maqbul Sheikh, Pramila Bharat Dalvi, Umesh Bharat Dalvi, Shivaganga Dilip Gavali, Janabai Papot Mansuke, Sandeep Shivaji Vani, Kapildev Shivaji Vani, Rajubhai Bababhay Sayyed, Haridas Hanumant Mhetre, Maruti Yallappa Jadhav, Dipa Nandkumar Hole, </p>
--	--	--	--	--	--

					Santosh Hanumant Mhetre, Swati alias Shubhangi Keshav Pawar, Omkar Keshav Pawar APK mother Swati Pawar, Om Keshav Pawar APK mother Swati Pawar, Tufail Iqbal Khan, Vaibhav Haribhau Dombe, Vaishali Kumar Bhosale, Nutan Kishor Ingawale, Chandrakant Haribhau Dombe, Komal Nilesh Bhoite. 392
Total					0.0808

[F. No. NHAI/PIU/SLP//LA/17/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director